



Date: 22/07/2020

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051

Sub.: Newspaper publications - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: PC Jeweller Limited (Scrip Code: 534809, Symbol: PCJEWELLER)


Dear Sir / Madam,


Please find enclosed herewith the newspaper publications made by the Company on July 22, 2020 in Mint (English) and Hindustan (Hindi) regarding "Notice to Shareholders - Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund" pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For **PC Jeweller Limited**


(VIJAY PANWAR)
Company Secretary



Encl.: As above

PC Jeweller Limited

REGD. & CORPORATE OFF: C - 54, PREET VIHAR, VIKAS MARG, DELHI - 110 092 PH: 011 - 49714971 FAX : 011 - 49714972

info@pcjeweller.com • www.pcjeweller.com • CIN: L36911DL2005PLC134929

Auto sales recover in June as demand soars

Recovery in the rural economy and fewer infections helped shore up sales

Malyaban Ghosh
malyaban@livemint.com
NEW DELHI

Retail sales of passenger vehicles and two-wheelers have shown steady improvement in June compared to the preceding month, as demand for entry-level cars and motorcycles continues to increase as a result of recovery in the rural economy. A good summer crop, healthy monsoon, and fewer covid-19 infections in the rural and semi-rural towns have contributed to a sharp turnaround in sales.

Sales in the domestic market had plunged in the March to May period because of the adverse impact of the coronavirus outbreak and the subsequent lockdown.

Retail sales of passenger vehicles declined by 38.34% year-on-year to just 126,417 units in June, according to data released by the Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) on Tuesday. Sequentially though, sales improved significantly from just 30,749 units sold in May. The same trend can be witnessed in the two-wheeler and tractor segments as well.

The improvement in retail sales after the easing of restrictions in May have prompted most manufacturers to target higher production. However, factors such as the increasing number of covid-19 cases and shortage of manpower have limited the ability of auto makers to increase production of vehicles. Intermittent lockdowns announced in certain states have also impacted retail sales.

With the improvement in retail sales, leading automakers such as Maruti Suzuki India Ltd and Hyundai Motor India Ltd, have decided to ramp up manufacturing in their respective factories by adding shifts. Maruti has increased manufacturing of its entry level models such as



The intermittent lockdowns announced in certain states have also impacted retail sales of vehicles.

Alto, Wagon R, and Celerio, while Hyundai has increased manufacturing of its Venue and Creta sport utility vehicles. Both companies have also witnessed significant increase in wholesales to fill the depleting inventory at dealerships.

Demand in the rural market has recovered faster than in the urban market because of the robust summer crop from the previous harvest and the timely arrival of the monsoon, which has led to improved retail sales of tractors, two-wheelers and small commercial vehicles, said Ashish Harsharaj KA, president, FADA.

rural market is backed by fiscal measures taken by the government to boost demand and this can also ensure the quickest return to normalcy for the auto industry. Overall demand, however, continues to be subdued, coupled with supply-side constraints and limitations in retail lending from non-banking financial companies. Hence, normalcy in demand still seems quite distant and may not be there before the festive season," said K.

Retail sales of commercial vehicles also declined by a massive 83.83% to just 10,509 units in June, as a result of the abrupt halt in economic activity because of the pandemic. Showroom sales of motorcycle and scooters also dropped by 40.92% to 790,18 units during the month. Retail, however, improved sequentially from 159,039 units in May because of quicker recovery in demand for entry and executive segment of motorcycles.

MIXED PERFORMANCE

RETAIL sales of passenger vehicles declined by 38.34% year-on-year to just 126,417 units in June	SEQUENTIALLY though, sales improved significantly from just 30,749 units in May	COMMERCIAL vehicle sales declined by a massive 83.83% to just 10,509 units in June
---	--	---



TikTok plans to add 10,000 jobs in US over next 3 years
btl/y3ekFvV

PTI
feedback@vminit.com
NEW DELHI

After banning 59 apps of Chinese origin, the government on Tuesday directed them to ensure compliance to its orders, and warned of a ban if they do not comply. The government on Tuesday directed them to ensure compliance to its orders, and warned of a ban if they do not comply.

Bombardier, GMR Infra, 14 other private players show interest in running trains

Shreya Nandi
shreya.n@vminit.com
NEW DELHI

As many as 16 companies, including Bombardier, Sterlite Power and GMR Infrastructure, have shown interest in operating passenger trains on India's railway network.

In a virtual pre-application conference organized by the Indian Railways on Tuesday, the companies raised their concerns and sought clarifications on the bidding framework, eligibility criteria, bid process, procurement of rakes, operations of trains and composition of route clusters.

There were 16 participants in the conference. Bombardier, Sterlite Power and GMR Infrastructure were some of the companies to seek queries, "a senior government official said, requesting anonymity.

The railway ministry will provide written replies to the queries received from the prospective applicants by 31 July. The second pre-application conference is scheduled on 12 August.

After the applicants are short-listed, they will have to offer a fixed-



The railway ministry will allow private firms to operate 151 trains across more than 100 routes.

price bid to qualify for the project.

The railway ministry said it will provide details of passenger traffic being handled on the routes under bidding to offer clarity before the process begins. The national transporter had earlier said it will run 151 additional trains on the busiest routes, where demand is high.

The national transporter will allow private companies to run 151 modern passenger trains across more than 100 routes. The trains will operate in 12 clusters, including Bengaluru, Chandigarh, Jaipur, Delhi, Mumbai, Patna,

Prayagraj, Secunderabad, Howrah and Chennai. By April 2023, trains across some routes will be operationalized. The project would entail private sector investment of about ₹30,000 crore.

The participation of private players in operating trains is expected to improve railway infrastructure with improved coach technology, thereby reducing journey time, and boosting the railways' earnings.

An official statement said that the railway ministry clarified that operational risks will be shared in an equitable manner by the private players, as well as the national transporter. "MoR (ministry of railways) has clarified that trains to be either purchased or taken on lease by the private entities," it said, adding that haulage charges (charge for using tracks) will be indexed for the entire concession period, bringing certainty on the rates.

According to the project information memorandum document released by the national transporter earlier this month, the concession period for the project will be 35 years, and the private firms will have to pay fixed haulage charges.

Govt asks Chinese apps to comply with ban

PTI
feedback@vminit.com
NEW DELHI

After banning 59 apps of Chinese origin, the government on Tuesday directed them to ensure compliance to its orders, and warned of a ban if they do not comply.

Continued operation of the banned apps within India will be considered an offence under the IT Act

The official told PTI that the IT ministry has now written to all these companies, warning that continued availability and operation of these banned apps,

directly or indirectly, is not only illegal but also an offence under the Information Technology (IT) Act and other applicable Acts, which would attract penal provisions.

If any company on the banned list is found to be made available through any means for use within India, directly or indirectly, it would

be construed as a violation of the government orders, the person added.

All these companies have been directed to ensure strict compliance of the orders of the ministry, failing which serious action will be taken, the official said.

The ministry in a communication sent to these companies has mentioned that the ban imposed was in exercise of the sovereign powers and section 69A of the IT Act.

CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED
(CIN: L74999DL1980PLC1691816)
Regd. Office- 1st Floor, Express Building,
9-10, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi - 110002
Email: camaccommercial@gmail.com,
Phone No: 7303495374,
Website: www.camaccommercial.com

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, July 29, 2020, at its Registered office inter-alia, to consider and approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the Fourth quarter and Financial year ended March 31, 2020.

The above information is also available on the website of the Company www.camaccommercial.com and sent to the Calcutta Stock Exchange Ltd.

By Order of the Board
For Camac Commercial Company Limited
Sd/-
Place: New Delhi
Date: 21/07/2020

PC Jeweller Limited
Regd. Off: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi-110092
Phone: 011-49714971, Website: www.pcjeweller.com
Fax: 011-49714972, E-Mail: investors@pcjeweller.com
Corporate Identity Number: L36911DL2005PLC134929

NOTICE TO SHAREHOLDERS
Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), the equity shares of the Company in respect of which dividend has remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF").

In accordance with IEPF Rules, the Company has sent communication at the registered address of those shareholders, whose shares are liable to be transferred to IEPF. The details of such shareholders have also been uploaded on the website of the Company at www.pcjeweller.com under Investor Section.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by October 10, 2020, the Company shall have to comply with the requirements set out in IEPF Rules, transfer the shares to IEPF as per the procedure stipulated in IEPF Rules without giving any further notice to the shareholders. All future benefits including dividend on such transferred shares would also be credited to IEPF.

The shareholders are requested to claim their unpaid dividend for the financial year 2012-13 and subsequent dividends before the same is transferred to IEPF. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to IEPF Rules. Shareholders may kindly note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under IEPF Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agent - KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 (Telangana), E-Mail: einward.ris@kfintech.com, Tel. No: 040-67162222 and Toll Free No.: 1800-345-4001.

For PC Jeweller Limited
Sd/-
(VIJAY PANWAR)
Company Secretary

DIGICONTENT LIMITED
CIN: L74999DL2017PLC322147
Registered Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India
Tel: +91 11 6656 1234; Fax: +91 11 6656 1270; Email: investor@digicontent.co.in; Website: www.digicontent.co.in
(INR in Lakhs except earnings per share data)

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

Particulars	30.06.2020		31.03.2020		30.06.2019		31.03.2020	
	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited
Revenue from Operations	6,338	6,124	6,296	6,296	25,910	25,910	25,910	25,910
Net Loss for the period (before tax and exceptional)	(3,361)	(1,617)	(975)	(975)	(3,952)	(3,952)	(3,952)	(3,952)
Net Loss for the period before tax (after exceptional)	(3,361)	(1,617)	(975)	(975)	(3,952)	(3,952)	(3,952)	(3,952)
Net Loss for the period after tax (after exceptional)	(2,597)	(1,295)	(924)	(924)	(3,302)	(3,302)	(3,302)	(3,302)
Total Comprehensive Loss for the period (Comprising Loss for the period after tax and Other Comprehensive Loss (after tax))	(2,624)	(1,272)	(917)	(917)	(3,409)	(3,409)	(3,409)	(3,409)
Post-up Equity Share Capital (Face Value - INR 2/- per share)	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164
Other Equity Reserving Reserves as per the balance sheet	-	-	-	-	-	-	-	-
Loss per share (of INR 2/- each)	Not Annualised	Not Annualised	Not Annualised	Not Annualised	Not Annualised	Not Annualised	Not Annualised	Not Annualised
Basic & Diluted	(4.46)	(2.22)	(1.59)	(1.59)	(5.67)	(5.67)	(5.67)	(5.67)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR"). The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.rseindia.com) and on the Company's website "www.digicontent.co.in".
- The above un-audited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2020 were reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 21, 2020. The Statutory Auditors have conducted "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the SEBI LODR, as amended and have issued an unmodified review opinion.
- The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.
- The figures of the quarter ended March 31, 2020 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto December 31, 2019 being the end of the third quarter of the financial year, which were subjected to limited review.
- Additional Information on Standalone financial results is as follows:-

Particulars	30.06.2020		31.03.2020		30.06.2019		31.03.2020	
	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited
Revenue from Operations	28	284	377	1,560	284	941	941	
Loss Before Tax	(423)	(377)	(284)	(941)	(423)	(941)	(941)	
Loss After Tax	(423)	(377)	(284)	(941)	(423)	(941)	(941)	
Total Comprehensive Loss	(424)	(379)	(284)	(941)	(423)	(941)	(941)	

For and on behalf of the Board of Directors
Praveen Someshwar
Director

EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION
VETERINARY SERVICES DEPARTMENT
419, Udyog Sadan, Patgar Ganj Ind. Area, Delhi-92
Ph. No. 6657330, 6656731

NIT No. EDMC/ADVS/GSH/2020/002
Leasing out of Ghazipur Slaughter House and Carcass Utilization Cum Rendering Plant at Ghazipur, Delhi-110096 (India)

The EDMC intends to Leasing out of Ghazipur Slaughter House and Carcass Utilization Cum Rendering Plant for its operation and maintenance for a period of 10 years. The bidding schedule is as follows:

Release of RFP documents : 20.07.2020 at 05:00 PM
Download of tender document : 20.07.2020 from 05:01 PM to 22.08.2020 up to 01:00 PM
Bid preparation and Hash submission from : 22.08.2020 at 03:00 PM to 05:30 PM
Close of bidding : 22.08.2020 at 06:00 PM to 06:30 PM
Re-encryption of online bid : 24.08.2020 03:00 PM

Technical opening : 24.08.2020 from 03:15 PM
Financial opening (tentative) : 31.08.2020 at 03:00 PM

Pre bid meeting will be held on 07.08.2020 at 11:00 AM for which pre bid queries can be submitted in the office of Director Veterinary Services or on email dirvetedmc@gmail.com by 06.08.2020 at 05:00 PM. Bidder opening for manual submission will submit the tender documents in sealed envelopes in tender box in the office of Director (VS) by 24.08.2020 up to 03:00 PM. Tenders can be downloaded from websites www.mcdonline.in as well as http://mcdtenders.com. However, for detailed terms and conditions RFP documents are furnished.

RO No - 2/7D/PVE/AT/2020-21
Director (VS)

New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida-201301 (U.P.)
Website: www.noidaauthorityonline.com

E-TENDER NOTICE

E-Tender is invited from firms/contractor registered with UPL Lucknow for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened / downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & https://tender.up.nic.in. Please ensure to see these websites for any changes/amendments & corrigendum etc.

Sl. No.	JOB No. (Tehsil/)	NAME OF WORK	AMOUNT	Tender Publication
1.	16/Adt/ (Tehsil/)	CONSTRUCTION OF SKYWALK ON BOT BASIS FOR PERIOD OF 08 YEARS AT INDIAN OIL CROSSING FROM SECTOR-15 METRO STATION TO NEVASHOK NAGAR ON DSC ROAD, NOIDA	2,26,18,149.54	First Time

Which can be uploaded by date 05.08.2020 upto 5.00 PM. Pre-qualification shall be opened/downloaded on date 06.08.2020 at 11.00 AM.
(R.M. Saxena)
Tehsildar, Noida

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

BHARAT DYNAMICS LIMITED
(A Government Enterprise)
MINISTRY OF DEFENCE
GACHIBOWLI, HYDERABAD-500 032.

PROCLAMATION ABRIDGED TENDER NOTICE
Inviting Indian Citizens Competitive Bidding

Sl. No.	Tender ID	Description of Work	Estimate
1	62185	FIRE FIGHTING facility with Hydrant and Pumps at BDL, Ibrahimpatnam unit Hyd.	₹ 659.92 Lakh
2	62280	AMC for Environmental and Hygienic control works at BDL Kanchanbagh-HYO	₹ 279.15 Lakh

Please visit website <https://bdlenders.abprocure.com> for further details. Bids should be submitted online only.
Corrigendum if any will be issued through e-portal only and not in Newspapers.
Add. General Manager (Corp. Comm.)

Business of Life
Daily articles on the workplace, and how it is evolving.

What CEOs are doing to improve gender equality at work

mint or nothing
THE MOST AWESOME BUSINESS DAILY THERE IS

To get your MINT copy, give a missed call on 7039035039 or visit www.mintreaders.com or write to us at subscription@livemint.com

